

B.Com. III Year Examination, 2022

COMMERCE-II Auditing

Time : 2 hrs.]

(C-302) (N)

[M.M. : 100

1. अंकेक्षक द्वारा त्रुटियों व कपटों को :
(a) रोका जा सकता है (b) रोका नहीं जा सकता है
(c) रोका जा सकता है, यदि व्यवसाय का स्वामी एवं कर्मचारी चाहें ✓
(d) उपर्युक्त सभी
2. राम से 500 रु. पाया किन्तु उसके खाते में 5,000 रु. जमा किया गया है :
(a) सैद्धान्तिक अशुद्धि (b) लिपिकीय अशुद्धि ✓
(c) क्षतिपूरक अशुद्धि
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
3. राम का खाता 200 रु. से अधिक नाम किया गया जबकि श्याम का खाता 200 रु. से कम नाम किया गया है :
(a) क्षतिपूरक अशुद्धि ✓
(b) लिपिकीय अशुद्धि
(c) सैद्धान्तिक अशुद्धि (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
4. कार्यालय टेलीफोन का घरेलू प्रयोग है :
(a) श्रम का गबन
(b) सम्पत्ति का गबन
(c) सुविधा का गबन ✓
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
5. कार्यालय भवन में संलग्न मजदूरों को निजी भवन के निर्माण में प्रयुक्त करना है :
(a) सम्पत्ति गबन
(b) श्रम का गबन ✓
(c) सुविधाओं का गबन
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
6. कार्यालय के सोफे का प्रयोग घरेलू कार्य में करना है :
(a) माल का गबन
(b) श्रम का गबन
(c) सम्पत्ति का गबन ✓
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
7. 1,000 रु. की मशीन क्रय की गयी किन्तु क्रय खाते का नाम किया गया है :
(a) लिपिकीय अशुद्धि (b) सैद्धान्तिक अशुद्धि ✓
(c) क्षतिपूरक अशुद्धि
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
1. Errors and frauds by an auditor :
(a) can be checked (b) can not be checked
(c) can be checked, if the proprietor and the employees of the firm desire ✓
(d) All of the above
2. Received Rs. 500 from Ram but credited his account by Rs. 5,000 is :
(a) Error of principle (b) Clerical error ✓
(c) Compensating error
(d) None of the above
3. Ram's account was excess debited by Rs. 200 whereas Shyam's account was under debited by Rs. 200 is :
(a) Compensating Error ✓
(b) Clerical Error
(c) Error of Principle (d) None of the above
4. Domestic use of official telephone is :
(a) Embezzlement of Labour
(b) Embezzlement of Property
(c) Embezzlement of Facility ✓
(d) None of the above
5. Allocation of labourers in the construction of personal building engaged in the construction of official building is :
(a) Embezzlement of Property
(b) Embezzlement of Labour ✓
(c) Embezzlement of Facilities
(d) None of the above
6. Domestic use of official Sopha is :
(a) Embezzlement of Goods
(b) Embezzlement of Labour
(c) Embezzlement of Property ✓
(d) None of the above
7. Purchased a machinery for Rs. 1,000 but debited to purchase account is :
(a) Clerical Error (b) Error of Principle ✓
(c) Compensating Error
(d) None of the above

8. प्रबन्धकों को सलाह देना अंकेक्षक का.....उद्देश्य है।

Question cancelled

- (a) मुख्य (b) सहायक
(c) सामाजिक (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

9. कर की चोरी से सुरक्षा प्रदान करना अंकेक्षण का..... उद्देश्य है।

- (a) मुख्य (b) सामाजिक
(c) सहायक (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं ✓

10. विनियोजकों की सुरक्षा अंकेक्षण का.....उद्देश्य है।

- (a) सामाजिक ✓ (b) आर्थिक
(c) मुख्य (d) सहायक

11. लेखा-पुस्तकों की जाँच करना अंकेक्षण का..... उद्देश्य है।

- (a) मुख्य ✓ (b) सामाजिक
(c) सहायक (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

12. वार्षिक विवरणों का सत्यापन करना अंकेक्षण का..... उद्देश्य है।

- (a) मुख्य ✓ (b) सामाजिक
(c) सहायक (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

13. छल-कपट की रोक अंकेक्षण का.....उद्देश्य है।

- (a) मुख्य (b) सहायक ✓
(c) सामाजिक (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

14. लागत अंकेक्षण, अंकेक्षण का.....उद्देश्य है।

- (a) मुख्य (b) सहायक
(c) विशिष्ट ✓ (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

15. निम्नलिखित में किसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य होता है?

- (a) एकाकी व्यापार (b) साझेदारी
(c) कम्पनी ✓ (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

16. छोटे एकाकी व्यापार में सामान्यतया अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि :

- (a) यह वैधानिकतः अनिवार्य नहीं है
(b) इसका क्षेत्र सीमित है
(c) इसके स्वामी का इस पर पूर्ण नियन्त्रण है
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

17. एक अंकेक्षक होता है :

- (a) पालतू कुत्ते की तरह ✓ (b) सिंह की तरह
(c) शिकारी कुत्ते की तरह (d) लावारिस कुत्ते की तरह

18. अनुसंधान प्रारम्भ होता है :

- (a) जब लेखांकन समाप्त होता है
(b) जब अंकेक्षण समाप्त होता है ✓
(c) जब पुस्तपालन समाप्त होता है
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

8. To render suggestions to the managers is..... object of the auditor.

- Question cancelled*
(a) Primary (b) Subsidiary
(c) Social (d) None of the above

9. Protection from evasion of tax is.....object of auditing.

- (a) Primary (b) Social
(c) Subsidiary (d) None of the above ✓

10. Protection of investors is.....object of auditing.

- (a) Social ✓ (b) Economic
(c) Primary (d) Subsidiary

11. To examine the books of accounts is the object of auditing.

- (a) Primary ✓ (b) Social
(c) Subsidiary (d) None of the above

12. Verification of annual statements is..... object of auditing.

- (a) Primary ✓ (b) Social
(c) Subsidiary (d) None of the above

13. Prevention of fraud is.....objects of auditing.

- (a) Primary (b) Subsidiary ✓
(c) Social (d) None of the above

14. Cost audit is.....object of auditing.

- (a) Primary (b) Subsidiary
(c) Specific ✓ (d) None of the above

15. For which of the following auditing is necessary?

- (a) Sale trading (b) Partnership
(c) Company ✓ (d) None of the above

16. Generally auditing is not necessary for small sole trading business because :

- (a) Legally it is not necessary
(b) It's scope is limited
(c) It's proprietor has full control on it
(d) None of the above

17. An auditor is as :

- (a) Watchdog ✓ (b) Lion
(c) Bloodhound (d) Street dog

18. Investigation begins :

- (a) When accounting ends
(b) When auditing ends ✓
(c) When book-keeping ends
(d) None of the above

19. अनुसंधान किया जा सकता है :
 (a) चार्टर्ड एकाउण्टेंट के द्वारा (b) लेखापाल के द्वारा ✓
 (c) दोनों के द्वारा (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
20. अनुसंधान होता है :
 (a) अनिवार्य (b) ऐच्छिक
 (c) (a) तथा (b) दोनों ✓ (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
21. अनुसंधान कराया जाता है :
 (a) व्यवसाय के मालिक द्वारा
 (b) बाह्य पक्षों के द्वारा
 (c) (a) तथा (b) दोनों ✓ (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
22. अनुसंधान प्रतिवेदन होता है :
 (a) संक्षिप्त (b) विस्तृत ✓
 (c) (a) तथा (b) दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
23. अनुसंधान कराया जाता है :
 (a) विशिष्ट उद्देश्य से ✓ (b) सामान्य उद्देश्य से
 (c) (a) तथा (b) दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
24. प्रबन्ध संचालक कितने दिनों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है?
 (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5 ✓
25. निजी कम्पनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए?
 (a) 2 ✓ (b) 3 (c) 4 (d) 5
26. सार्वजनिक कम्पनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए?
 (a) 2 (b) 3 ✓ (c) 4 (d) 5
27. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 165 सम्बन्धित है :
 (a) कार्यवाही विवरण पुस्तिका से
 (b) वैधानिक प्रतिवेदन से *Question cancelled*
 (c) समामेलन से पूर्व लाभ से
 (d) उपर्युक्त सभी
28. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 139 सम्बन्धित है :
 (a) कार्यवाही विवरण पुस्तिका से
 (b) समामेलन से पूर्व लाभ से
 (c) प्रारम्भिक व्यय से
 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
29. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 208 सम्बन्धित है :
 (a) ऋणपत्र से
 (b) बोनस अंश के निर्गमन से
19. Investigation can be done by :
 (a) Chartered Accountant (b) Accountant ✓
 (c) Both (d) None of the above
20. Investigation is :
 (a) Compulsory (b) Voluntary
 (c) Both (a) and (b) ✓ (d) None of the above
21. Investigation is get done by :
 (a) The proprietor of the firm
 (b) Outside parties
 (c) Both (a) and (b) ✓ (d) None of the above
22. Investigation report is :
 (a) Brief (b) Detail ✓
 (c) Both (a) and (b) (d) None of the above
23. Investigation is get done :
 (a) For specific object ✓ (b) For general object
 (c) Both (a) and (b) (d) None of the above
24. For what period a managing director can be appointed ?
 (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5 ✓
25. In private companies at least what should be the minimum numbers of directors?
 (a) 2 ✓ (b) 3 (c) 4 (d) 5
26. In public companies at least what should be the minimum numbers of directors?
 (a) 2 (b) 3 ✓ (c) 4 (d) 5
27. Section 165 of Companies Act, 1956 is associated with :
 (a) Minute Book *Question cancelled*
 (b) Statutory Report
 (c) Profit prior to Incorporation
 (d) All of the above
28. Section 139 of Companies Act, 1956 is associated with :
 (a) Minute Book
 (b) Profit prior to Incorporation
 (c) Preliminary Expenses
 (d) None of the above
29. Section 208 of Companies Act, 1956 is associated with :
 (a) Debenture
 (b) Issue of Bonus Shares

- (c) पूँजी से ब्याज के भुगतान से
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
30. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 80 सम्बन्धित है :
(a) पूर्वाधिकार-अंशों के निर्गमन व शोधन से
(b) पूँजी से ब्याज के भुगतान से
(c) ऋणपत्र से (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
31. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 114-115 सम्बन्धित है :
(a) अंश प्रमाण-पत्र से (b) अंश अधिपत्र से
(c) अंशों के हस्तान्तरण से (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
32. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 113 सम्बन्धित है :
(a) अंश प्रमाण-पत्र से (b) सुरक्षित पूँजी से
(c) अंश पूँजी में कमी से
(d) उपर्युक्त सभी
33. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 100 सम्बन्धित है :
(a) अंश पूँजी में कमी से
(b) सुरक्षित पूँजी से
(c) अंश प्रमाण-पत्र से (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
34. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 79 सम्बन्धित है :
(a) अंशों का सममूल्य पर निर्गमन से
(b) अंशों का बट्टा पर निर्गमन से
(c) अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन से
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
35. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 13 सम्बन्धित है :
(a) पार्षद सीमानियम से
(b) अन्तर्नियम से
(c) प्रविवरण से (d) मिनट बुक से
36. 'टेबल' 'A' विकल्प है :
(a) पार्षद सीमानियम का
(b) अन्तर्नियम का
(c) प्रविवरण का (d) मिनट बुक का
37. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 26 सम्बन्धित है :
(a) पार्षद सीमानियम का
(b) अन्तर्नियम का
(c) प्रविवरण से (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (c) Payment of interest out of capital
(d) None of the above
30. Section 80 of Companies Act, 1956 is associated with :
(a) Issue and redemption of preference shares
(b) Payment of interest out of capital
(c) Debenture (d) None of the above
31. Section 114-115 of Companies Act, 1956 are associated with :
(a) Share certificate (b) Share warrants
(c) Transfer of shares (d) None of the above
32. Section 113 of Companies Act, 1956 is associated with :
(a) Share certificate (b) Reserve capital
(c) Reduction in share capital
(d) All of the above
33. Section 100 of Companies Act, 1956 is associated with :
(a) Reduction in share capital
(b) Reserve capital
(c) Share certificate (d) None of the above
34. Section 79 of Companies Act, 1956 is associated with :
(a) Issue of shares at per
(b) Issue of shares at discount
(c) Issue of shares at premium
(d) None of the above
35. Section 13 of Companies Act, 1956 is associated with :
(a) Memorandum of Association
(b) Article of Association
(c) Prospectus (d) Minute Book
36. Table 'A' is the substitute of :
(a) Memorandum of Association
(b) Article of Association
(c) Prospectus (d) Minute Book
37. Section 26 of Companies Act, 1956 is associated with :
(a) Memorandum of Association
(b) Article of Association
(c) Prospectus (d) None of the above

38. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 55 सम्बन्धित है :
 (a) पार्षद सीमानियम से
 (b) अन्तर्नियम से
 (c) प्रविवरण से (d) मिनट बुक से
39. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 69 सम्बन्धित है :
 (a) प्रविवरण से (b) मिनट बुक से
 (c) न्यूनतम अभिदान से
 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
40. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 78(2) सम्बन्धित है :
 (a) अधिमूल्य पर अंशों के निर्गमन से
 (b) बट्टे पर अंशों के निर्गमन से
 (c) सममूल्य पर अंशों के निर्गमन से
 (d) उपर्युक्त सभी से
41. पार्षद सीमानियम में परिवर्तन के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है?
 (a) न्यायालय (b) केन्द्रीय सरकार
 (c) राज्य सरकार (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
42. निम्न में से कम्पनी का चार्टर किसे कहते हैं?
 (a) पार्षद सीमानियम
 (b) अन्तर्नियम
 (c) प्रविवरण (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
43. अंकेक्षण का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व कम्पनी अंकेक्षक को चाहिए कि :
 (a) नियुक्ति सम्बन्धी जाँच कर ले
 (b) व्यवसाय की प्रकृति का अध्ययन कर ले
 (c) गत वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन का अध्ययन कर ले
 (d) उपर्युक्त सभी
44. सार्वजनिक कम्पनी का अंकेक्षण होता है :
 (a) ऐच्छिक (b) पूर्ण
 (c) अनिवार्य (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
45. साझेदारी फर्म का अंकेक्षण होता है :
 (a) अनिवार्य (b) ऐच्छिक
 (c) वैकल्पिक (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
46. एकाकी व्यापार का अंकेक्षण होता है :
 (a) अनिवार्य (b) ऐच्छिक
 (c) सामयिक (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
47. प्रन्यासों का अंकेक्षण होता है :
 (a) अनिवार्य (b) ऐच्छिक
38. Section 55 of Companies Act, 1956 is associated with :
 (a) Memorandum of Association
 (b) Article of Association
 (c) Prospectus (d) Minute Book
39. Section 69 of Companies Act is associated with:
 (a) Prospectus (b) Minute Book
 (c) Minimum Subscription
 (d) None of the above
40. Section 78(2) of Companies Act, 1956 is associated with :
 (a) Issue of shares at premium
 (b) Issue of shares at discount
 (c) Issue of shares at per
 (d) All of the above
41. For alteration in Memorandum of Association whose approval is necessary?
 (a) Court (b) Central Govt.
 (c) State Govt. (d) None of the above
42. Which of the following is called the Charter of the company?
 (a) Memorandum of Association
 (b) Article of Association
 (c) Prospectus (d) None of the above
43. Before commencing the audit work a company auditor should :
 (a) Examine the appointment
 (b) Study the nature of the institution
 (c) Examine the statutory records
 (d) All of the above
44. Audit of public company is :
 (a) Voluntary (b) Complete
 (c) Compulsory (d) None of the above
45. Audit of partnership firm is :
 (a) Compulsory (b) Voluntary
 (c) Optimal (d) None of the above
46. Audit of sole trading is :
 (a) Compulsory (b) Voluntary
 (c) Periodical (d) None of the above
47. Audit of trusts is :
 (a) Compulsory (b) Voluntary

- (c) वैकल्पिक (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
48. सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण होता है :
 (a) ऐच्छिक (b) अनिवार्य ✓
 (c) वैकल्पिक (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
49. हास चार्ज किया जाता है :
 (a) केवल स्थायी सम्पत्तियों पर ✓
 (b) केवल चालू सम्पत्तियों पर
 (c) सभी सम्पत्तियों पर (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
50. हास उत्पन्न होता है :
 (a) केवल सम्पत्ति के प्रयोग के कारण
 (b) केवल अप्रचलन के कारण
 (c) किसी भी कारण (d) उपर्युक्त सभी
51. सम्पत्ति का लगातार प्रयोग :
 (a) हास का आन्तरिक कारण है ✓
 (b) हास का बाह्य कारण है
 (c) (a) तथा (b) दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
52. सम्पत्तियों का अप्रचलन :
 (a) हास का आन्तरिक कारण है
 (b) हास का बाह्य कारण है ✓
 (c) (a) तथा (b) दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
53. आयोजन किया जाता है :
 (a) विशेष उद्देश्य से ✓ (b) सामान्य उद्देश्य से
 (c) अन्य उद्देश्य से (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
54. संचय किया जाता है :
 (a) सामान्य उद्देश्य से ✓ (b) विशिष्ट उद्देश्य से
 (c) अन्य उद्देश्य से (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
55. शोधन कोष बनाया जाता है :
 (a) विशेष उद्देश्य ✓ (b) सामान्य उद्देश्य
 (c) (a) तथा (b) दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
56. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य अंकेक्षक का है?
 (a) खाते की गणितीय शुद्धता की जाँच करना
 (b) अशुद्धियों को ढूँढना एवं रोकना
 (c) कपट को ढूँढना एवं रोकना
 (d) उपर्युक्त सभी ✓
57. एक अंकेक्षक कौन हो सकता है?
 (a) वाणिज्य स्नातक (b) विधि स्नातक
 (c) कॉस्ट एकाउण्टेंट (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं ✓
58. अंकेक्षण एक है :
 (a) कला (b) विज्ञान
 (c) (a) तथा (b) दोनों ✓ (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

- (c) Optimal (b) None of the above
48. Audit of Cooperative Institutions is :
 (a) Voluntary (b) Compulsory ✓
 (c) Optimal (b) None of the above
49. Depreciation is charged on :
 (a) Fixed assets only ✓
 (b) Current assets only
 (c) All assets (b) None of the above
50. Depreciation arises due to :
 (a) Uses of assets only
 (b) Obsolescence
 (c) Any reason (d) All of the above
51. Continuous uses of assets :
 (a) is the internal cause of depreciation ✓
 (b) is the external cause of depreciation
 (c) Both (a) and (b) (d) None of the above
52. Obsolescence of assets :
 (a) is the internal cause of depreciation
 (b) is the external cause of depreciation ✓
 (a) Both (a) and (b) (d) None of the above
53. Provision is made for :
 (a) Specific object ✓ (b) General object
 (b) Other object (d) None of the above
54. Reserve is made for :
 (a) General object ✓ (b) Specific object
 (c) Other object (d) None of the above
55. S.F. is made :
 (a) For specific object ✓ (b) For general object
 (c) Both (a) and (b) (d) None of the above
56. Which of the following is the function of auditor?
 (a) To examine the arithmetical accuracy of accounts
 (b) To detect and prevent the errors
 (c) To detect and prevent the frauds
 (d) All of the above ✓
57. Who can be an auditor?
 (a) Commerce Graduate (b) Law Graduate
 (c) Cost Accountant (d) None of the above ✓
58. Auditing is a/an :
 (a) Art (b) Science
 (c) Both (a) and (b) ✓ (d) None of the above

59. लेखाकर्म प्रारम्भ होता है जहाँ :
 (a) पुस्तपालन का अन्त होता है ✓
 (b) अंकेक्षण समाप्त होता है
 (c) अनुसंधान समाप्त होता है
 (d) उपर्युक्त सभी
60. जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है, वहाँ :
 (a) अंकेक्षण प्रारम्भ होता है
 (b) लेखांकन प्रारम्भ होता है ✓
 (c) अनुसंधान प्रारम्भ होता है
 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
61. अंकेक्षण प्रारम्भ होता है, जहाँ :
 (a) पुस्तपालन समाप्त होता है
 (b) लेखांकन समाप्त होता है ✓
 (c) अनुसंधान समाप्त होता है
 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
62. जहाँ अनुसंधान प्रारम्भ होता है, वहाँ :
 (a) अंकेक्षण समाप्त होता है ✓
 (b) पुस्तपालन समाप्त होता है
 (c) लेखांकन समाप्त होता है
 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
63. प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखाकर्म होता है :
 (a) विलासिता (b) आवश्यकता ✓
 (c) प्रतिष्ठामूलक (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
64. एक पनेरी के लिए अंकेक्षण होता है :
 (a) आवश्यकता (b) विलासिता ✓
 (c) मितव्ययिता (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
65. टाटा कम्पनी के लिए अंकेक्षण है :
 (a) आवश्यकता ✓ (b) विलासिता
 (c) प्रतिष्ठामूलक (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
66. मानवीय स्मरण शक्ति होती है :
 (a) असीमित (b) सीमित
 (c) तीक्ष्ण (d) उपर्युक्त सभी
67. चार्टर्ड एकाउण्टेंट होते हैं :
 (a) अनिपुण अंकेक्षक (b) सरकारी अंकेक्षक
 (c) पेशेवर अंकेक्षक (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
68. अंकेक्षक में पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का ज्ञान होता है :
 (a) उपार्जित ज्ञान ✓ (b) जन्मजात गुण
 (c) मौखिक गुण (d) उपर्युक्त सभी
69. अंकेक्षण का तकनीकी ज्ञान होता है :
 (a) जन्मजात (b) उपार्जित ✓
 (c) मौलिक (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

59. Accountancy begins where :
 (a) Book-keeping ends ✓
 (b) Auditing ends
 (c) Investigation ends
 (d) All of the above
60. Where book-keeping ends, there :
 (a) Auditing begins
 (b) Accountancy begins ✓
 (c) Investigation begins
 (d) None of the above
61. Auditing begins, where :
 (a) Book-keeping ends
 (b) Accountancy ends ✓
 (c) Investigation ends
 (d) None of the above
62. Where investigation begins, there :
 (a) Auditing ends ✓
 (b) Book-keeping ends
 (c) Accountancy ends
 (d) None of the above
63. For every business accountancy is :
 (a) Luxury (b) Necessity ✓
 (c) Symbol of prestige (d) None of the above
64. For a betelshopkeeper, auditing is :
 (a) Necessity (b) Luxury ✓
 (c) Economics (d) None of the above
65. For Tata Company auditing is :
 (a) Necessity ✓ (b) Luxury
 (c) Symbol of prestige (d) None of the above
66. Human memory power is :
 (a) Unlimited (b) Limited
 (c) Fast (d) All of the above
67. Chartered Accountants are :
 (a) Amateur Auditor (b) Government Auditor
 (c) Professional Auditor (d) None of the above
68. In an auditor the knowledge of Book-keeping and Accountancy is :
 (a) Acquired knowledge ✓ (b) Born qualities
 (c) Original qualities (d) All of the above
69. Technical knowledge of auditing is :
 (a) Born (b) Acquired ✓
 (c) Original (d) None of the above

70. एक अंकेक्षक का उच्च नैतिक स्तर होता है :
 (a) जन्मजात का ✓ (b) उपार्जित ज्ञान
 (c) सामान्य गुण (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
71. एक अंकेक्षक को होना चाहिए :
 (a) निर्भीक (b) धैर्यवान
 (c) ईमानदार (d) उपर्युक्त सभी ✓
72. एक अंकेक्षक में होना चाहिए :
 (a) चतुराई (b) ईमानदारी
 (c) नैतिकता (d) उपर्युक्त सभी ✓
73. एक अंकेक्षक को नहीं होना चाहिए :
 (a) चतुर (b) ईमानदार
 (c) शंकालु ✓ (d) धैर्यवान
74. बहियों का जोड़ निकालना.....के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।
 (a) नैतिक जाँच (b) प्रमाणन
 (c) अंकेक्षण (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं ✓
75. प्रमाणकों की जाँच करना.....के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।
 (a) नैतिक जाँच (b) प्रमाणन ✓
 (c) अंकेक्षण (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
76. प्रमाणन के अन्तर्गत जाँच की जाती है :
 (a) प्रारम्भिक लेखा पुस्तकों की ✓
 (b) अन्तिम लेखा पुस्तकों की
 (c) आर्थिक चिह्न की (d) उपर्युक्त सभी
77. "लेखांकन की पुस्तकों में किये गये लेखों की सत्यता का प्रमाण देने वाले प्रपत्र ही प्रमाणक कहे जाते हैं।" किसकी परिभाषा है?
 (a) जे.आर. बॉटलीबॉय ✓ (b) लंकास्टर
 (c) स्पाइसर एवं पेगलर (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
78. प्रमाणक सम्बन्धित होना चाहिए :
 (a) गत वर्ष से (b) चालू वर्ष से ✓
 (c) दोनों वर्ष से (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
79. प्रत्येक प्रमाणक पर हस्ताक्षर होने चाहिए :
 (a) लेखापाल के (b) प्रबन्धक के
 (c) उत्तरदायी अधिकारी के (d) उपर्युक्त सभी के ✓
80. क्रेता द्वारा लौटाये गये माल का लेखा होना चाहिए :
 (a) बिक्री वापसी बही में (b) स्टॉक खाते में
 (c) दोनों खातों में (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं ✓
81. निम्नांकित में से कौन सही है?
 (a) लेखा बिना प्रमाणक का भी हो सकता है
 (b) प्रमाणकों की लेखा के साथ तुलना आवश्यक नहीं है
70. High moral character of an auditor is :
 (a) Born qualities ✓ (b) Acquired knowledge
 (c) General qualities (d) None of the above
71. An auditor should be :
 (a) Fearless (b) Patient
 (c) Honest (d) All of the above ✓
72. An auditor should have :
 (a) Tactfulness (b) Honesty
 (c) Morality (d) All of the above ✓
73. An auditor should not be :
 (a) Tactful (b) Honest
 (c) Suspicious ✓ (d) Patient
74. Addition of books comes under the scope of
 (a) Routine checking (b) Vouching
 (c) Auditing (d) None of the above ✓
75. Examination of vouchers comes under the scope of.....
 (a) Routine checking (b) Vouching ✓
 (c) Auditing (d) None of the above
76. Under vouching checking is done of :
 (a) Books of original entry ✓
 (b) Final books of accounts
 (c) Balance sheet (d) All of the above
77. "Vouching means testing the truth of the items appearing in the books of original entry." Who has given this definition?
 (a) J. R. Baltiboi ✓ (b) Lankaster
 (c) Spicer & Pegler (d) None of the above
78. Vouchers should be concerned with :
 (a) Previous year (b) Current year ✓
 (c) Both years (d) None of the above
79. Every voucher should be signed by :
 (a) Accountant (b) Manager
 (c) Responsible official (d) All of the above ✓
80. Goods returned by customers should be entered in :
 (a) Sales Return Book (b) Stock Account
 (c) Both Accounts (d) None of the above ✓
81. Which one of the following is true ?
 (a) Entry can be made without a voucher
 (b) Comparing the vouchers with entries is not essentials

- (b) कोई प्रमाणक बिना लेखा के या कोई लेखा बिना प्रमाणक के नहीं होना चाहिए
(d) उपर्युक्त सभी
82. निम्नांकित में से कौन-सा सही है?
(a) अंकेक्षण प्रमाणन की रीढ़ की हड्डी है
(b) प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है
(c) प्रमाणन लेखांकन की रीढ़ की हड्डी है
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
83. प्रमाणक में होना चाहिए :
(a) तिथि (b) रकम
(c) हस्ताक्षर (d) उपर्युक्त सभी
84. लापरवाही के लिए दायित्व है :
(a) सापराध दायित्व (b) दीवानी दायित्व
(c) अन्य दायित्व (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
85. त्रुटियों तथा कपटों का पता न लगाना है :
(a) दीवानी दायित्व (b) सापराध दायित्व
(c) अन्य दायित्व (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
86. चिट्ठे की सही सूचना अंशधारियों को नहीं देना है :
(a) दीवानी दायित्व (b) सापराध दायित्व
(c) अन्य दायित्व (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
87. अंकेक्षक द्वारा प्रमाणकों को नष्ट करना है :
(a) दीवानी दायित्व (b) सापराध दायित्व
(c) अन्य दायित्व (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
88. जानबूझकर कपटपूर्ण प्रतिवेदन देना है :
(a) सापराध दायित्व (b) दीवानी दायित्व
(c) अन्य दायित्व (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
89. बिना पारिश्रमिक के अंकेक्षक का दायित्व होता है :
(a) सीमित (b) असीमित
(c) सामान्य अंकेक्षक के दायित्व की तरह
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
90. सहायकों की लापरवाही का दायित्व होता है :
(a) अंकेक्षक का दायित्व (b) सहायकों का दायित्व
(c) नियोक्ता का दायित्व
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
91. एकाकी व्यापार का अंकेक्षण होता है :
(a) अनिवार्य (b) ऐच्छिक
(c) वैधानिक (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
92. साझेदारी व्यवसाय का अंकेक्षण होता है :
(a) ऐच्छिक (b) वैधानिक
(c) अनिवार्य (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
93. एकाकी व्यापार में अंकेक्षक की नियुक्ति होती है :
(a) समझौते के आधार पर
(b) वैधानिक प्रावधान के आधार पर
(c) (a) तथा (b) दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (c) There should be no entry without vouchers and no vouchers without entry
(d) All of the above
82. Which one of the following is correct ?
(a) Auditing is the backbone of vouching
(b) Vouching is the backbone of auditing
(c) Vouching is the backbone of accounting
(d) None of the above
83. There should be in vouching :
(a) Date (b) Amount
(c) Signature (d) All of the above
84. Liabilities for negligence is :
(a) Criminal Liabilities (b) Civil Liabilities
(c) Other Liabilities (d) None of the above
85. Not to detect errors and frauds is :
(a) Civil Liabilities (b) Criminal Liabilities
(c) Other Liabilities (d) None of the above
86. Not to give correct information to the shareholders regarding Balance Sheet is :
(a) Civil Liabilities (b) Criminal Liabilities
(c) Other Liabilities (d) None of the above
87. Destruction of vouchers by auditor is :
(a) Civil Liabilities (b) Criminal Liabilities
(c) Other Liabilities (d) None of the above
88. To present doubtful report knowingly is :
(a) Criminal Liabilities (b) Civil Liabilities
(c) Other Liabilities (d) None of the above
89. Liabilities of a honorary auditor is :
(a) Limited (b) Unlimited
(c) As the liabilities of a general auditor
(d) None of the above
90. The liabilities for assistants negligence is :
(a) Auditor's Liabilities (b) Assistants' Liabilities
(c) Employer's Liabilities
(d) None of the above
91. Audit of sole trading is :
(a) Compulsory (b) Voluntary
(c) Statutory (d) None of the above
92. Audit of partnership firm is :
(a) Voluntary (b) Statutory
(c) Compulsory (d) None of the above
93. In sole trading the appointment of auditor is made :
(a) On the basis of agreement
(b) On the basis of statutory provision
(c) Both (a) and (b) (d) None of the above

94. साझेदारी व्यवसाय में अंकेक्षक की नियुक्ति होती है :

(a) समझौते के आधार पर

(b) वैधानिक प्रावधान के आधार पर

(c) (a) तथा (b) दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

95. कम्पनी अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है :

(a) संचालकों द्वारा (b) अंशधारियों द्वारा

(c) केन्द्रीय सरकार द्वारा (d) उपर्युक्त तीनों के द्वारा

96. कम्पनी अंकेक्षक की नियुक्ति किस धारा के अन्तर्गत होती है?

(a) 224 (b) 228 (c) 230 (अ) (d) 251

97. कम्पनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का वर्णन कम्पनी अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत किया गया है?

(a) 224 (b) 224(8) (c) 225 (d) 231

98. कम्पनी का विशेष अंकेक्षण कौन कराता है?

(a) कम्पनी के संचालक (b) अंशधारी

(c) केन्द्रीय सरकार (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

99. अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत कम्पनी का विशेष अंकेक्षण होता है?

(a) 233(A) (b) 233(B)

(c) 233(C) (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

100. शाखा अंकेक्षक की नियुक्ति अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत होती है?

(a) 224 (b) 225 (c) 228 (d) 231

94. In partnership business the appointment of auditor is made :

(a) One the basis of agreement

(b) On the basis of statutory provision

(c) Both (a) and (b) (d) None of the above

95. Appointment of company auditor is made by :

(a) Directors (b) Shareholders

(c) Central Government (d) Above three

96. Under which Section a company auditor is appointed?

(a) 224 (b) 228 (c) 230 (a) (d) 251

97. Under which Section of Companies Act the remuneration of the auditor has been discussed?

(a) 224 (b) 224(8) (c) 225 (d) 231

98. By whom the special audit of a company is get done?

(a) Director of the company (b) Shareholders

(c) Central Government (d) None of the above

99. Under which Section of the Act the audit of a company is done?

(a) 233(A) (b) 233(B)

(c) 233(C) (d) None of the above

100. Under which Section of the Act the branch auditor is appointed?

(a) 224 (b) 225 (c) 228 (d) 231

Answersheet

1.	(c)	2.	(b)	3.	(a)	4.	(c)	5.	(b)	6.	(c)	7.	(b)	8.	(x)	9.	(d)	10.	(a)
11.	(a)	12.	(a)	13.	(b)	14.	(c)	15.	(c)	16.	(T1)	17.	(a)	18.	(b)	19.	(b)	20.	(c)
21.	(c)	22.	(b)	23.	(a)	24.	(d)	25.	(a)	26.	(b)	27.	(x)	28.	(x)	29.	(x)	30.	(x)
31.	(x)	32.	(c)	33.	(x)	34.	(x)	35.	(x)	36.	(x)	37.	(x)	38.	(x)	39.	(x)	40.	(x)
41.	(x)	42.	(a)	43.	(d)	44.	(c)	45.	(x)	46.	(b)	47.	(a)	48.	(b)	49.	(a)	50.	(T2)
51.	(a)	52.	(b)	53.	(a)	54.	(a)	55.	(a)	56.	(d)	57.	(d)	58.	(c)	59.	(a)	60.	(b)
61.	(b)	62.	(a)	63.	(b)	64.	(b)	65.	(a)	66.	(x)	67.	(c)	68.	(a)	69.	(b)	70.	(a)
71.	(d)	72.	(d)	73.	(c)	74.	(d)	75.	(b)	76.	(a)	77.	(a)	78.	(b)	79.	(c)	80.	(c)
81.	(c)	82.	(b)	83.	(d)	84.	(b)	85.	(a)	86.	(a)	87.	(b)	88.	(a)	89.	(c)	90.	(a)
91.	(b)	92.	(a)	93.	(a)	94.	(a)	95.	(b)	96.	(x)	97.	(x)	98.	(c)	99.	(x)	100.	(x)

X = Question Cancelled

T1 = a & c

T2 = c & d